

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 891]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 27 दिसम्बर 2019 — पौष 6, शक 1941

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
दाऊ कल्याण सिंह भवन (पुराना मंत्रालय) के समीप, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2019

अधिसूचना

क्र.-एफ-66-2/तीन(दो)/न.पा./निर्वा. अभ्यर्थी/2019/3537.— छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के अनुसरण में एतद् द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि नगर पालिका परिषद् सुकमा जिला-सुकमा (छ.ग.)के माह दिसंबर, 2019 में हुए आम निर्वाचन में निम्न अनुसूची के कॉलम दो में उल्लेखित पद हेतु कॉलम पांच में उल्लेखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

अनुसूची

क्रं.	पद	वार्ड क्रमांक		नाम	पता
		अंको में	शब्दों में		
1	2	3	4	5	6
1	पार्षद	1	एक	अनिल कुमार मण्डावी	वार्ड क्रमांक-01 पोस्ट-सुकमा, जिला-सुकमा
2	पार्षद	2	दो	शेख गुलाम	वार्ड क्रमांक-2 भगत सिंह वार्ड, पोस्ट-सुकमा, जिला-सुकमा
3	पार्षद	3	तीन	शिल्पा मंडावी	वार्ड क्रमांक-03, मेन रोड सुकमा, पोस्ट-सुकमा, जिला-सुकमा
4	पार्षद	4	चार	रामसुख यादव	वार्ड क्रमांक-4 मस्जिद रोड पटनम पारा सुकमा पोस्ट-सुकमा, जिला-सुकमा
5	पार्षद	5	पांच	लालम्मा पुजारी	वार्ड क्र.-5 स्वामी विवेकानंद वार्ड सुकमा पोस्ट-सुकमा, जिला-सुकमा
6	पार्षद	6	छः	आयशा हुसैन	वार्ड क्र.-6 सरदार वल्लभ भाई पटेल सुकमा, पोस्ट-सुकमा, जिला-सुकमा
7	पार्षद	7	सात	दीपक कुमार नाग	वार्ड क्रमांक-7 गांधी नगर सुकमा, पोस्ट-सुकमा, जिला-सुकमा
8	पार्षद	8	आठ	विमला माड़वी	वार्ड क्रमांक-8 सुकमा, पोस्ट-सुकमा, जिला-सुकमा
9	पार्षद	9	नौ	दीपक कुमार नेताम	वार्ड क्र.-9 महादेव वार्ड सुकमा, पोस्ट-सुकमा, जिला-सुकमा
10	पार्षद	10	दस	प्रताप सिंह समरथ	वार्ड क्रमांक-10 शांतिनगर सुकमा, पोस्ट-सुकमा, जिला-सुकमा

11	पार्षद	11	ग्यारह	जगन्नाथ (राजू) साहू	वार्ड क्रमांक-13 लाईन पारा सुकमा पोस्ट-सुकमा, जिला-सुकमा
12	पार्षद	12	बारह	चंद्रिका गुप्ता	वार्ड क्रमांक-12 पोस्ट-सुकमा, जिला-सुकमा
13	पार्षद	13	तेरह	पदमा जायसवाल	वार्ड क्रमांक-13 चन्द्रशेखर वार्ड सुकमा पोस्ट-सुकमा, जिला-सुकमा
14	पार्षद	14	चौदह	मनोज देव	राजवाड़ा सुकमा पोस्ट-सुकमा, जिला-सुकमा
15	पार्षद	15	पन्द्रह	लच्छूराम पोड़ियामी	वार्ड क्रमांक-15 सुकमा पोस्ट-सुकमा, जिला-सुकमा

हस्ता./—

(जिनेविवा किण्डो)
सचिव.

Raipur, the 27th December 2019

NOTIFICATION

No. F-66-2/Three(two)/NP./Elected Candidate/2019/3537.— In pursuance of Section 45 of the Chhattisgarh Municipal Council Act 1961 (No. 37 of 1961), it is hereby notified that in the general election held in the month of December, 2019 of the Municipal Council Sukma District-Sukma (CG) for the post mentioned in column (2) of the following schedule. The people mentioned are elected :-

SCHEDULE

No.	Post	Ward No.		Name	Address
		in digits	in words		
1	2	3	4	5	6
1	Councillor	1	ONE	Anil Kumar Mandavi	Ward No-1 Sukma, Post-Sukma, Dist. Sukma
2	Councillor	2	TWO	Shekh Gulam	Ward No-2 Bhagat Singh Ward Sukma Post-Sukma, Dist. Sukma
3	Councillor	3	THREE	Shilpa Mandavi	Ward No-3 Main Road Sukma], Post-Sukma, Dist. Sukma
4	Councillor	4	FOUR	Ramsukh Yadav	Ward No-4 Masjid Road Patnampara Sukma Post-Sukma, Dist. Sukma
5	Councillor	5	FIVE	Lalamma Pujari	Ward No-5 Swami Vivekanand Ward Sukma Post-Sukma, Dist. Sukma
6	Councillor	6	SIX	Aisha Husain	Ward No-6 Sardar Vallabhbhai Patel Sukma Post-Sukma, Dist. Sukma
7	Councillor	7	SEVEN	Deepak Kumar Nag	Ward No-7 Gandhi Nagar Sukma Post-Sukma, Dist. Sukma
8	Councillor	8	EIGHT	Vimla Madvi	Ward No-8 Sukma Post-Sukma, Dist. Sukma
9	Councillor	9	NINE	Deepak Kumar Netam	Ward No-9 Mahadev Ward Sukma Post-Sukma, Dist. Sukma
10	Councillor	10	TEN	Pratap Singh Samrath	Ward No-10 Shanti Nagar Sukma Post-Sukma, Dist. Sukma

11	Councillor	11	ELEVEN	Jagannath (Raju) Sahu	Ward No-13 Line Para Sukma Post-Sukma, Dist. Sukma
12	Councillor	12	TWELVE	Chandrika Gupta	Ward No-12 Sukma Post-Sukma, Dist. Sukma
13	Councillor	13	THIRTEEN	Padma Jaiswal	Ward No-13 Chandrashaker Ward Sukma Post-Sukma, Dist. Sukma
14	Councillor	14	FOURTEEN	Manoj Dev	Rajwada Sukma Post-Sukma, Dist. Sukma
15	Councillor	15	FIFTEEN	Lachhura Podiyami	Ward No-15 Sukma Post-Sukma, Dist. Sukma

Sd/-

(Jineviva Kindo)
Secretary.

रायपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2019

अधिसूचना

क्र.-एफ-66-2/तीन(दो)/न.पा./निर्वा. अभ्यर्थी/2019/3537.— छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के अनुसरण में एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि नगर पंचायत दोरनापाल, जिला-सुकमा (छ.ग.) के माह दिसंबर, 2019 में हुए आम निर्वाचन में निम्न अनुसूची के कॉल मदों में उल्लेखित पद हेतु कॉलम पांच में उल्लेखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

अनुसूची

क्र.	पद	वार्ड क्रमांक		नाम	पता
		अंको में	शब्दों में		
1	2	3	4	5	6
1	पार्षद	1	एक	राधा नायक	वार्ड क्र. 01 नगर पंचायत दोरनापाल
2	पार्षद	2	दो	धर्मेन्द्र सिंह भदौरिया	वार्ड क्र. 13 नगर पंचायत दोरनापाल
3	पार्षद	3	तीन	बबिता माड़वी	वार्ड क्र. 13 नगर पंचायत दोरनापाल
4	पार्षद	4	चार	युतपति यादव	वार्ड क्र. 04 नगर पंचायत दोरनापाल
5	पार्षद	5	पांच	बाबुराम यादव	वार्ड क्र. 05 नगर पंचायत दोरनापाल
6	पार्षद	6	छः	सोड़ी मंगली	वार्ड क्र. 06 नगर पंचायत दोरनापाल
7	पार्षद	7	सात	पुष्पलता भदौरिया	वार्ड क्र. 07 नगर पंचायत दोरनापाल
8	पार्षद	8	आठ	झरना दुर्गा	वार्ड क्र. 08 नगर पंचायत दोरनापाल
9	पार्षद	9	नौ	पुनेम हुरा	वार्ड क्र. 12 नगर पंचायत दोरनापाल
10	पार्षद	10	दस	कोसी ठाकुर	वार्ड क्र. 15 नगर पंचायत दोरनापाल
11	पार्षद	11	ग्यारह	लक्ष्मी चौहान	वार्ड क्र. 14 नगर पंचायत दोरनापाल
12	पार्षद	12	बारह	मंगी सोड़ी	वार्ड क्र. 12 नगर पंचायत दोरनापाल
13	पार्षद	13	तेरह	शिव कुमार भारती	वार्ड क्र. 07 गांधी नगर दोरनापाल
14	पार्षद	15	पन्द्रह	मड़कम सुभाष	वार्ड क्र. 15 नगर पंचायत दोरनापाल

हस्ता./-

(जिनेविवा किण्डो)
सचिव.

Raipur, the 27th December 2019

NOTIFICATION

No. F-66-2/Three(two)/NP./Elected Candidate/2019/ 3537.— In pursuance of Section 45 of the Chhattisgarh Municipal Council Act 1961 (No. 37 of 1961), it is hereby notified that in the general election held in the month of December, 2019 of the Nagar Panchayat Doranapal, District-Sukma (CG), for the post mentioned in column (2) of the following schedule. The people mentioned are elected :-

SCHEDULE

No.	Post	Ward No.		Name	Address
		in digits	in words		
1	2	3	4	5	6
1	Councillor	1	ONE	Radha Nayak	Ward No. 01 Nagar Panchayat Doranapal
2	Councillor	2	TWO	Dharmendra Singh Bhadhouriya	Ward No. 13 Nagar Panchayat Doranapal
3	Councillor	3	THREE	Babita Madvi	Ward No. 13 Nagar Panchayat Doranapal
4	Councillor	4	FOUR	Yutpati Yadav	Ward No. 04 Nagar Panchayat Doranapal
5	Councillor	5	FIVE	Baburam Yadav	Ward No. 05 Nagar Panchayat Doranapal
6	Councillor	6	SIX	Sodi Mangli	Ward No. 06 Nagar Panchayat Doranapal
7	Councillor	7	SEVEN	Pushplata Bhadhouriya	Ward No. 07 Nagar Panchayat Doranapal
8	Councillor	8	EIGHT	Jharna Durga	Ward No. 08 Nagar Panchayat Doranapal
9	Councillor	9	NINE	Punem Hurra	Ward No. 12 Nagar Panchayat Doranapal
10	Councillor	10	TEN	Kosi Thakur	Ward No. 15 Nagar Panchayat Doranapal
11	Councillor	11	ELEVEN	Lakshmi Chauhan	Ward No. 14 Nagar Panchayat Doranapal
12	Councillor	12	TWELVE	Mangi Sodi	Ward No. 12 Nagar Panchayat Doranapal
13	Councillor	13	THIRTEEN	Shiv Kumar Bharti	Ward No. 07 Gandhi Nagar Doranapal
15	Councillor	15	FIFTEEN	Madkam Subhash	Ward No. 15 Nagar Panchayat Doranapal

Sd/-

(Jineviva Kindo)
Secretary.